

**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 8 जून, 2022

**संख्या लैज.20/2022.**— दि ट्रांसप्लान्टेशन आफ ह्यूमैन आर्गनज़ (हरियाणा वैलिडेशन) ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 02 जून, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

**2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20**

**मानव अंग प्रतिरोपण (हरियाणा विधिमन्यकरण) अधिनियम, 2022**  
**मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का**  
**केन्द्रीय अधिनियम 16), हरियाणा राज्यार्थ, के अधीन किए**  
**गए आदेशों तथा जारी की गई अधिसूचनाओं, की**  
**गई कार्रवाईयों तथा किए गए कार्यों को**  
**विधिमन्य करने हेतु**  
**अधिनियम**

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम मानव अंग प्रतिरोपण (हरियाणा विधिमन्यकरण) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा लागूकरण।  
 (2) यह 28 सितम्बर, 2011 से लागू हुआ समझा जाएगा।
  2. मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन किए गए सभी आदेशों, जारी की गई अधिसूचनाओं, की गई कार्रवाईयों तथा किए गए कार्यों को विधिमन्य रूप से किए गए आदेश, जारी की गई अधिसूचना, की गई कार्रवाई तथा किए गए कार्य समझे जाएंगे तथा सदैव किए गए, जारी की गई, की गई तथा किए गए समझे जाएंगे मानो वे उक्त अधिनियम के अधीन किए गए, जारी की गई, की गई तथा किए गए थे और तदनुसार— विधिमन्यकरण।
    - (i) सरकार द्वारा या सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए सभी आदेश, की गई कार्रवाईयां और किए गए कार्य, सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार किए गए आदेश, की गई कार्रवाईयां तथा किए गए कार्य समझे जाएंगे और विधि के किसी न्यायालय के सम्मुख प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे;
    - (ii) किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के सम्मुख कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी।
- व्याख्या.**— विधिमन्यकरण के प्रयोजन हेतु, "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

बिमलेश तंवर,  
 सचिव, हरियाणा सरकार,  
 विधि तथा विधायी विभाग।